



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73 ]  
No. 73 ]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2004/चैत्र 4, 1926  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2004/CHAITRA 4, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2004

## 6.2 प्रतिशत भारत सरकार यू.टी.आई. विशेष बांड, 2010 का पुनर्निर्गम

एफ. सं. 4(21)-डब्ल्यू एण्ड एम/2002.— भारत सरकार एतद्वारा 328 करोड़ रुपए (नामिनल) की कुल राशि के 6.2 प्रतिशत भारत सरकार यू.टी.आई. विशेष बांड, 2010 (जिन्हें इसके बाद संक्षिप्त रूप में “विशेष बांड” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का निर्गम 24 मार्च, 2004 को अधिसूचित करती है।

### 1. विशेष बांड में अभिदान की पात्रता और अभिदान की सीमा

केवल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम का प्रशासक (जिसे इसके बाद ‘यू.टी.आई.’ के रूप में उल्लिखित किया गया है) विशेष बांड में अभिदान का पात्र होगा और विशेष बांड में उनका अभिदान उसी राशि की सीमा तक सीमित होगा जिसे भारत सरकार ने आशवासित लाभ योजनाओं में कमी के कारण उनकी देयताओं की पूर्ति हेतु आबंटित किया है। बैंक, कंपनी, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति विशेष बांड में अभिदान के लिए पात्र नहीं होगा।

### 2. मूल्य

विशेष बांड प्रति 100 रुपए (नामिनल) के लिए 100 रुपए पर जारी किए जाएंगे।

### 3. आवेदन पत्र

विशेष बांड यू.टी.आई. से प्राप्त आवेदन पत्र पर अनुबंध में दिए गए प्रपत्र के अनुसार जारी किए जाएंगे।

### 4. प्रतिभूति के लिए भुगतान

यू.टी.आई. द्वारा 24 मार्च, 2004 को विशेष बांड के लिए किए जाने वाले भुगतान में आवेदित विशेष बांड के नामिनल मूल्य पर पिछले कूपन भुगतान की तारीख अर्थात् 3 फरवरी, 2004 से 23 मार्च, 2004 तक उपचित ब्याज शामिल होगा।

### 5. प्रतिभूति का स्वरूप

विशेष बांड भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों में धारित सहायक सामान्य बही लेखा में क्रेडिट द्वारा जारी किया जाएगा।

### 6. अवधि का प्रारम्भ और वापसी अदायगी की तारीख

विशेष बांड की अवधि 3 फरवरी, 2003 से शुरू होगी। विशेष बांड की वापसी अदायगी 3 फरवरी, 2010 को सममूल्य पर की जाएगी।

### 7. ब्याज

पिछले कूपन के भुगतान की तारीख से विशेष बांड के नामिनल मूल्य पर 6.2 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज उपचित होगा और इसका भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर 3 अगस्त तथा 3 फरवरी को किया जाएगा।

विशेष बांड पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, चेन्नई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना तथा तिरुवनंतपुरम में स्थित लोक ऋण कार्यालयों में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान ब्याज की राशि को निकटतम रूपए तक पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा।

### 8. अभिदान की न्यूनतम राशि तथा अंकित मूल्य

विशेष बांड न्यूनतम 10,000 रूपए (नामिनल) की राशि के लिए और उसके बाद 10,000 रूपए के गुणजों में जारी किए जाएंगे।

### 9. हस्तांतरणीयता

इस अधिसूचना में ऊपर पैरा 1 में वर्णित करने के बावजूद, यू.टी.आई. द्वारा विशेष बांड को बैंकों, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूति का अन्तरिती भी उन्हें उसी तरीके से धारण तथा अंतरण करने का पात्र होगा।

### 10. सांविधिक उपबंध

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसकी व्यवस्था इस अधिसूचना के तहत नहीं की गई है, विशेष बांड लोक ऋण अधिनियम, 1944 और उसके तहत निर्मित लोक ऋण नियमावली, 1946 द्वारा शासित किए जाएंगे।

### 11. कर कानून की प्रयोज्यता

विशेष बांड में निवेश का मूल्य और उस पर देय ब्याज समय-समय पर लागू कर कानूनों के उपबंधों द्वारा शासित किये जाएंगे।

### 12. बांडों की पात्रता

विशेष बांड में किए गए निवेश को यू.टी.आई. द्वारा अथवा बैंक द्वारा, वित्तीय संस्थाओं, निगमों सहित अन्य संस्थाओं अथवा किसी अन्य निकाय द्वारा जिसमें बांड को बाद में पात्र निवेश के रूप में अन्तरित किया जाता है

और जिसे उन्हें किसी सांविधिक अपेक्षा अथवा प्रशासनिक आदेश, जो भी हो के अनुपालन में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है, पात्र निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से  
के. एस. मेनन, संयुक्त सचिव

### अनुबंध

स्थान:

तिथि:

मुख्य महाप्रबंधक,  
लोक ऋण कार्यालय,  
भारतीय रिजर्व बैंक,  
मुम्बई-400 001

**विषय:- 6.2 प्रतिशत भारत सरकार का यू.टी.आई. विशेष बांड, 2010 ।**

महोदय,

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना एफ. सं. 4(21)-डब्ल्यू एंड एम/2002 दिनांक 24 मार्च, 2004 की शर्तों के अंतर्गत हम 328 करोड़ रुपये की समग्र राशि के शीर्षकांकित बांड में अभिदान करने के पात्र हैं।

हमें विशेष बांडों को शासित करने वाली निबंधन तथा शर्तें स्वीकार्य हैं और हम आपसे हमारे पक्ष में बांड जारी करने का अनुरोध करते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय मुहर/स्टाम्प

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2004

**Reissue of 6.2 per cent Government of India UTI Special Bonds, 2010**

F. No. 4(21)-W&M/2002.— Government of India hereby notifies the reissue of 6.2 per cent Government of India UTI Special Bonds, 2010, (hereinafter briefly described as “Special Bonds”) for an aggregate amount of Rs. 328 crore (nominal) on March 24, 2004.

**1. Eligibility for making subscription to the Special Bonds and limits of subscription**

Only Administrator of the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (hereinafter referred to as ‘UTI’) shall be eligible to subscribe to the Special Bonds and their subscription to the Special Bonds shall be limited to the extent of the amount allotted by the Government of India for meeting their liability on account of shortfalls in assured returns schemes. No other person including any bank, company, corporation or any other body shall be eligible to subscribe to the Special Bonds.

**2. Price**

The Special Bonds shall be issued at Rs. 100 for Rs. 100 (Nominal).

**3. Application**

The Special Bonds shall be issued on application from UTI as per proforma in Annexure.

**4. Payment for the Security**

The payment for the Special Bonds by UTI on March 24, 2004 will include accrued interest on the nominal value of the Special Bonds applied for from the last coupon payment date, i.e., February 3, 2004 to March 23, 2004.

**5. Form of Security**

The Special Bonds will be issued by credit to the Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Offices of the Reserve Bank of India.

**6. Commencement of tenure and date of repayment:**

The tenure of the Special Bonds will commence from February 3, 2003. The Special Bonds will be repaid at par on February 3, 2010.

**7. Interest**

Interest at the rate of 6.2 per cent per annum will accrue on the nominal value of the Special Bonds from the date of last coupon payment and will be payable half yearly on August 3 and February 3.

Interest on the Special Bonds will be payable at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Chennai, Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthapuram. Interest will be paid after rounding off the amount of Interest to the nearest rupee.

**8. Minimum amount of subscription and denomination**

The Special Bonds will be issued for a minimum amount of Rs. 10,000 (Nominal) and in multiples of Rs. 10,000 thereafter.

**9. Transferability**

Notwithstanding what is stated in paragraph 1 hereinabove, there will be no restriction on the transfer of the Special Bonds by UTI in favour of any other person including banks, corporation or any other body and the transferee of such security would also be entitled to hold and transfer the same in similar manner.

**10. Statutory provisions**

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Special Bonds shall be governed by the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder.

**11. Applicability of Tax law**

The value of the investment in the Special Bonds and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

**12. Eligibility of Bonds**

The investment in the Special Bonds would not be considered as an eligible investment by UTI or the banks, other institutions including Financial Institutions, Corporation or any other body to which the bonds are subsequently transferred as eligible investment which they are required to make in Government securities in pursuance of any statutory requirement or administrative order, as the case may be.

By Order of the President of India  
K. S. MENON, Jt. Secy.

**ANNEXURE****Place:****Date:**

The Chief General Manager  
Public Debt Office,  
Reserve Bank of India,  
Mumbai-400 001

**Subject: 6.2 per cent Government of India UTI Special Bonds, 2010.**

Sir,

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Notification F.No 4(21)-W&M/2002 dated 24<sup>th</sup> March, 2004, we are eligible to subscribe to the captioned bonds for an aggregate amount of Rs. 328 crore.

We accept the terms and conditions governing the Special Bonds and request you to issue the bonds in our favour.

Yours faithfully,

Signature:

Name:

Designation:

Office Seal/Stamp